

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30=05=2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 नवम्बर 2018 — कार्तिक 12, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

अधिसूचना
सं. 53/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-55/2018/वाक/पांच (94). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये 23 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्टूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-87/2017/वाक/पांच(153) तारीख 18 अक्टूबर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 468 तारीख 28 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था या छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-94/2017/वाक/पांच(173) तारीख 15 नवंबर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 506 तारीख 21 नवंबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321 (अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ-10-55/2018/वाक/पांच (94) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-55/2018/वाक/पांच (94), दिनांक 22.10.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीतापी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 22nd October 2018

NOTIFICATION
No. 53/ State Tax

No. F-10-55/2018/CT/V (94). - In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.
- In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:-

“(10)The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the State Government, in the Commercial Tax Department, notification No. 48/2017-State Tax, F-10-87/2017/CT/V(153), dated the 18th October, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 468, dated the 28th October, 2017, or notification No. 40/2017-State Tax (Rate), F-10-94/2017/CT/V(173), dated the 15th November, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 506, dated the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

सं. 54/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-55/2018/वाक/पांच (95). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 9 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मदे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने -

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-94/2017 / वाक/पांच(173) तारीख 15 नवंबर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 506 तारीख 21 नवंबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया ,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-87/2017/ वाक/पांच(153) तारीख 18 अक्टूबर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 468 तारीख 28 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-94 /2017/वाक/पांच(173) तारीख 15 नवंबर 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 506 तारीख 21 नवंबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ-10-55/2018/चाक/पांच (95). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-55/2018/चाक/पांच (95), दिनांक 22.10.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी. विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 22nd October 2018

NOTIFICATION
No. 54/ State Tax

No. F-10-55/2018/CT/V (95). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall deemed to have come into force from 9th October, 2018.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

- (a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the State Government, Commercial Tax Department, notification No. 40/2017-State Tax (Rate), F-10-94/2017/CT/V(173), dated the 15th November, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 506, dated the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or
- (b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.”.

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

- (a) received supplies on which the benefit of the State Government, in the Commercial Tax Department, notification No. 48/2017-State Tax, F-10-87/2017/CT/V(153), dated the 18th October, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 468, dated the 28th October, 2017, except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or State Government, in the Commercial Tax Department, notification No. 40/2017-State Tax (Rate), F-10-94/2017/CT/V(173), dated the 15th November, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 506, dated

- the 21st November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or
- (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.